

December 24, 2023

1. The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited
(Scrip Code: NAUKRI)

2. The Manager- Listing BSE Limited (Scrip Code: 532777)

Sub.: Newspaper Publication for Notice of Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6(3) of Investor Education and Profection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of Notice to shareholders for tansfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund, published in the following editions: -

- Financial Express (National Daily newspaper) on December 24, 2023
- Jansatta (Daily newspaper of the State) on December 24, 2023

Submitted for your information & records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Info Edge (India) Ltd.

Jaya Bhatia Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

FE SUNDAY

FROM THE FRONT PAGE

AI firm drops \$1.5-bn deal with Infosys

They are also of the opinion that the market has become so competitive that the particular client might have got better terms from some other IT vendor. After a historic Q2 marked by numerous billiondollar deals, IT companies are now completing a nearly dry Q3. The dearth of such mega deals in Q3 comes on the back of IT leaders echoing during Q2 earnings calls that new deals are getting neutralised as digital transformation projects are getting completed or coming to an end. The replacement of old deals by new deals are also at a slower pace. K Krithivasan, CEO of TCS, noted during an earnings call, "The newly won deals are converting into revenue as expected, but these revenue inflows are getting neutralised by reduction in the existing revenue base the transformation projects get completed, or RTB (run the business) projects get optimised, or in some cases, downsized."

ICICI-Sec leases 1.88 lakh sq ft in Navi Mumbai

This is one of the major office lease deals after the Union Government allowed floorwise and partial denotification in IT special economic zones, which means IT parks can lease a portion of space to firms earning income in rupee terms. ICICI Securities already owns a back office in Navi Mumbai and now it has taken a larger area for the same, people in the know said. Recently, Reliance Nippon Life Insurance leased 48,924 square feet space in Inspire BKC, a commercial

A year when sedans moved in slow lane



ACCORDING TO ANALYSTS, launches such as the Verna provided a slight boost to sedans, but over time buyers shifted back to SUVs. "Thanks to the new City and Verna launches in March, sedan sales rose a whopping 64.3% in April, but in the following months customers went back to SUVs," an analyst said.

Saket Mehra, partner & auto sector leader at Grant Thornton Bharat, said while brand loyalty (amongst existing sedan consumers) and new launches like the City and Verna may persuade a percentage of buyers to opt for sedans, overall consumer sentiment is more inclined towards feature-rich, high

ground clearance SUVs. "This preferential shift has largely been observed in the past five-six years and is likely to remain in the future as well," he said.

Another reason that boosted sales of sedans earlier this year was high waiting period on most SUVs. For instance, during early and mid-2023, models such as Hyundai Creta and Toyota Urban Cruiser Hyryder (both SUVs) had waiting period running into many months—thanks to high bookings in 2022 and limited production due to semiconductor shortage—even as sedans were available either off the shelf or at a few weeks' notice (as their bookings were

much lower). Coupled with new launches, this attracted a section of buyers. However, over time, automakers pumped up SUV production (as semiconductor shortage eased) and now with SUV waiting periods substantially reduced, these have become the primary choice of customers.

But possibly the biggest reason for increasing popularity of SUVs is the sheer choice in terms of models.

"Agreed, we had the new City and Verna this year, but don't forget the year saw far more SUV launches-Maruti Suzuki Fronx and Jimny, Hyundai Exter, Honda Elevate and Citroën C3 Aircross, amongst others—and so the SUV choice was much wider than sedans," according to an analyst. While sales of premium sedans have dropped, sub-4 metre sedans are holding their own, at least as of now. These are more functional – for example, a Maruti Suzuki Dzire can have a CNG tank fitted in the boot space and thus very low running costs. Similarly, someone who wants a Honda badge and quality for ₹8-9 10 lakh, can get it in the Amaze, instead of spending ₹15-odd lakh on the Elevate SUV. "These sub-4 metre sedans (others are Hyundai Aura and Tata Tigor) will continue attracting the no-frills, functional buyer," the analyst said.

> **AGENCIES** New Delhi, December 23 A SUSPECTED DRONE attack

on a merchant vessel with 21 Indian crew in the Arabian Sea off India's west coast caused an explosion on Saturand accessibility consultant day but there was no report of any casualties in the incident, according to military sources and a maritime agency.

A P-8I maritime patrol aircraft, deployed by the Indian Navy after the United Kingdom Maritime Trade Operations, or UKMTO, reported the incident, ascertained the safety of the vessel and its crew, Indian military sources said. An attack by Uncrewed Aerial System (UAS) on a vessel 200 nautical miles South West of Veraval, India, caused "an explosion and fire", the UKMTO said on its website. Indian Navy officials said a maritime patrol aircraft sent to the area flew overhead the merchant vessel and established contact with it. "The aircraft ascertained the safety of the vessel and its crew," said a Navy official.

Drone and missile attacks in the Red Sea by Iran-backed Houthis on commercial shipping are forcing shippers to change course and take longer routes around the

The Navy has already dispatched a frontline warship

southern tip of Africa

for safety of the cargo vessel. It is learnt that the Indian Coast Guard diverted its ship ICGS Vikram to the area where the merchant ship is located. The military sources said the vessel now heading towards the nearest port. The vessel was reportedly bringing crude oil from a port in Saudi Arabia to Mangalore port. They said out of 22 crew members onboard the vessel, 21 are Indians.

In a brief statement, the UKMTO said it "received a report of an attack by Uncrewed Aerial System (UAS) on a vessel causing an explosion and fire. Incident 200 NM South West of

Veraval, India."

guished" and there were no casualties. "Authorities are investigating. Vessels are advised to transit with caution and report any suspicious activity to UKMTO," it said. Indian news agency ANI, in which Reuters has a minority stake, identified the tanker as MV Chem Pluto carrying crude oil from Saudi Arabia. The hit on the vessel follows drone and missile attacks in the Red Sea by Iranbacked Houthis, who say they

are supporting Palestinians

under siege by Israel in the

Gaza Strip, on commercial ship-

ping, are forcing shippers to

change course and take longer

routes around the southern tip

It said the fire was "extin-

of Africa. "Merchant vessels are advised these types of attacks are typically targeted at Israelaffiliated shipping, but have in the past mistakenly hit previously Israel-affiliated vessels," British maritime security firm Ambrey said. "This event fell within Ambrey's

Iranian UAV heightened

Flight in France:

threat area."

Merchant vessel with 21 Indians attacked

NO CASUALTIES IN DRONE HIT



The Navy has dispatched a frontline warship for safety of the cargo vessel

property owned by Adani Group in Bandra Kurla Complex, Mumbai.

After old age homes, now real estate offerings for differently abled

Chennai-based developer. Akshaya, and NGO Special Child Assistance Network (SCAN) and Vidva Sagar, which work on issues related to disability and advocate for rights

Aster DM Healthcare Limited

Registered Office: No.1785, Sarjapur Road, Sector -1, HSR Layout, Ward

No.174, Agara Extension, Bengaluru-560102, Karnataka, India.

Tel: +91 484 6699999, Website: www.asterdmhealthcare.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with

General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 (in continuation of Circular

number 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June

15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020

10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021, 03/2022 dated

May 05, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022) issued by the Ministry of

Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars") (including any statutory

modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and such other applicable

laws and regulations, the approval of the Members of Aster DM Healthcare Limited (the

"Company") is being sought for the following resolution by way of postal ballot through

of the Company, of its entire ownership of the shares in entities

conducting business in the GCC region, including Aster DM Healthcare FZC, i.e., a material subsidiary of the Company to Alpha

GCC Holdings Limited in terms of Regulation 23 and other applicable

regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEB

Listing Regulations"), as amended from time to time, read with

Company's 'Policy on Material Subsidiaries' and 'Related Party

Transaction Policy' and Section 2(76), Section 188 and other

applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with

the rules framed thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and other

applicable laws / statutory provisions, if any, (b) a consequential

transaction being 'Non-Compete and Brand Co-existence

Agreement', with Affinity Holdings Private Limited, Aster DM

Healthcare FZC, Alpha GCC Holdings Limited and Dr. Azad Moopen,

and Ms. Alisha Moopen, being the promoters of the Company, and

(c) consequential arrangement being 'MVT' (Medical Value Travel)

To approve the sale by Affinity Holdings Private Limited, a wholly

owned subsidiary of the Company, of its entire ownership of the

shares in entities conducting business in the GCC region

including Aster DM Healthcare FZC, i.e., a material subsidiary of the Company, to Alpha GCC Holdings Limited, in terms of

Regulations 16(1)(c), 24(5) and other applicable regulations of

the SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, read

with Company's 'Policy on Material Subsidiaries' and other

applicable provisions of the Act, read with the rules framed

with Aster DM Healthcare FZC

To approve: (a) a material related party transaction, being the sale by Ordinary resolution to

Affinity Holdings Private Limited, a wholly owned material subsidiary | be passed by majority

CIN: L85110KA2008PLC147259

Email: cs@asterdmhealthcare.com

e-Voting process ("e-Voting")

for persons with disabilities, have joined hands for this initiative. This is part of Akshaya Today, a 21-acre mini-township at Kelambakkam. The homes to be managed by SCAN and Vidya Sagar will have coliving facilities for adults with special needs, a therapy centre, a vocational centre and supported employment options within the campus.

In Delhi NCR, the Action For Autism (AFA) has set up Ananda for persons with autism spectrum conditions and developmental disabilities. AFA's Ananda is a group home that offers long-term support when parents age or pass away and respite services for families who require a short

Clean Kerala

stay for their children during times of medical situations in the family, travel or just to give adults a break from their families. Instead of leading devalued lives in soulless institutions or ending up on the streets, at Ananda, they live around a community with a family-like environment with training support and vocational activities.

Coimbatore-based CovaiCare has homes for people with special needs located within their retirement community. They were the first to come up with the inclusive living model whereby people with disability (autism, Down syndrome and cerebral palsy) could live with their parents.

On the demise of the parents, the CovaiCare Trust takes care of them and helps them live comfortably. Anita Iyer Narayan, diversity, inclusion and managing trustee of Ekansh, a non-profit organisation based in Pune, working towards the inclusion and empowerment of persons with disabilities, said more such homes were needed for adults with intellectual and physical challenges. "We receive several calls asking if there was some place for them. While moneyed people have a place to go, middleclass and poorer people struggle to find a secure decent home for their own," Iyer said.

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

CWPM, Construction of online booster station at Ambalamukku and road reformation. EMD Rs. 500000/-. Tender fee: Rs. 16540+(2978)GST, Last Date for submitting Tender: 08-01-2024 04:00:pm, Phone: 0495 2371046, Website: www.kwa.kerala.gov.in www.etenders.kerala.gov.ir

KWA-JB-GL-6-1872-2023-24

info**edge** INFO EDGE (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC068021 | Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-19 Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) | Tel: 0120-3082000; Fax: 0120-3082095 Website: www.infoedge.in; Email: investors@naukri.com

NOTICE

(For the attention of Equity Shareholders of the Company)

Protection Fund ("IEPF") This Notice is hereby given pursuant to provisions of Section 124(6) and other applicable provisions,

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and

if any, of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs as amended from time to time ("the Rules"). The Rules, inter-alia contains provisions for transfer of unpaid or unclaimed dividend to IEPF authority and transfer of shares in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more to IEPF.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has already communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF authority under the said Rules for taking appropriate action(s). The details of such shareholders are also uploaded on the website of the Company i.e. www.infoedge.in. The concerned shareholders are thus requested to claim the unclaimed dividend on or before the due date, otherwise the shares shall be transferred to the IEPF authority after the due date.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF authority, may also take note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF authority as per Rules and upon such issue, the original share certificate which stands registered in their name will stand automatically cancelled and will have no effect whatsoever and in case shares are held in Demat form, the Company would give appropriate instructions in the form of Corporate Action to the Depositories such that the Depositories are able to transfer the said shares to the demat account of the IEPF authority.

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the company for the purpose of transfer of shares to IEPF authority pursuant to the Rules. Please note that upon transfer to IEPF, no claim shall lie upon the Company in respect of the unclaimed dividend amount and equity shares so transferred.

Please take note that unclaimed or unpaid dividend which have already been transferred or the shares which are being transferred by the Company to IEPF authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the shareholders from IEPF authority by following the procedure given on its website i.e. http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html. Further in order to claim the unclaimed dividend lying with the Company or in case you need any information /clarification, please write to or contact our RTA: M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel: 011-41410592, e-mail: iepf.shares@linkintime.co.in.

Please provide following details in all your communications: 1. Name of the Company, 2. Folio No. or DP and Client ID, 3. Name of Shareholder, 4. Contact No., 5. Email ID. Also provide self-attested KYC documents of the shareholder like PAN, cancelled cheque leaf along with latest utility bill as address proof.

> By Order of the Board of Directors For Info Edge (India) Ltd. Sd/-

Company Secretary & Complance Officer

New Delhi

Jaya Bhatia

India says trying to resolve issue PRESS TRUST OF INDIA

Paris, December 23

INDIA ON SATURDAY said it was working with the French government for an early resolution of the situation after a Nicaragua-bound flight carrying 303 people, mostly Indians, was detained by French authorities during a technical halt at an airport near Paris over suspected "human trafficking".

The plane that took off from Dubai in the United Arab **Emirates carrying 303 Indian** passengers, including many minors, was grounded at the Chalons-Vatry airport in Marne on Thursday.

"French authorities informed us of a plane w/303 people, mostly Indian origin, from Dubai to Nicaragua detained on a technical halt at a French airport," the Indian mission said in a post on'X'.

PUBLIC NOTICE LINDE INDIA LTD., Regd. office : Oxygen House, P-43, Taratala Road, Kolkata, West Bengal - 700088. We (1) Kantilal Chhaganlal Khandwala (Deceased) (2) Hemlataben Kantilal Khandwala (Deceased) (3) Sunita Khandwala the registered share holders of the inder mentioned shares jointly held in the above said company, hereby give notice that the share certificates in respect of the said shares have been st/misplaced and we have applied to the company for issue of Duplicate share certificate. Any person having claim in respect of the said hares should lodge such claims with the compan at its above referred address within 21 days from this date, else the company will proceed to issue luplicate share certificate and no further claim wi e entertained by the company thereafter. FOLIO NO. 2213738

Sunita Khandwala

thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and other applicable laws / statutory provisions, if any. Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement on Saturday, December 23, 2023 to all Members of the Company, who have registered their e-mail address with the Company (in respect of shares held in physical form) or with their Depository Participant (in respect of shares held in electronic form) as on Friday, December 15, 2023 i.e. the cut-off date. The

Postal Ballot Notice will also be available on the Company's website at. https://www.asterdmhealthcare.com/investors/shareholders-services/postal-ballot websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depositories Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. In accordance with the provisions of the MCA Circulars, Members can vote only through the remote e-Voting process. Members whose names appear on the Register of

Members/List of Beneficial Owners as on Friday, December 15, 2023 will be considered

for the purpose of e-Voting and voting rights shall be reckoned on the paid-up value of

Equity Shares registered in the name of the shareholders as on that date. A person who is

not a Member on the cut-off date shall treat this notice for information purposes only. The Company has engaged the services of NSDL for providing e-Voting facility to all its Members. Members are requested to note that e-Voting will commence on Sunday. December 24, 2023 at 09:00 AM (IST) and end on Monday, January 22, 2024 at 05:00 PM (IST). E-voting shall not be allowed beyond 05:00 PM (IST) on Monday, January 22, 2024. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by sending an email to the

Company at cs@asterdmhealthcare.com. The instructions on the process of e-Voting, including the manner in which Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through e-Voting, are provided in the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors have appointed Mr. M Damodaran, Managing Partner of M Damodaran & Associates LLP, Practicing Company Secretaries, (ICSI Membership No. FCS: 5837 COP: 5081) as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot only through the e-Voting process in a fair and transparent manner.

The results of Postal Ballot through e-Voting (along with the Scrutinizer's report) will be declared by the Chairman or persons authorized by the Board of the Company on or before January 24, 2024 and will also be displayed on the website of the Company at https://www.asterdmhealthcare.com/investors/shareholders-services/postal-ballot and on notice Board of the registered office of the Company and shall be communicated to the Stock Exchanges, NSDL and RTA.

In case of any queries or grievances with respect to e-Voting, Members can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 022 - 4886 7000/ 022 - 2499 7000 or contact Mr. Amit Vishal, Asst Vice President, NSDL at evoting@nsdl.co.in.

Place: Bengaluru

Date: December 23, 2023

financialexp.epap

By Order of the Board of Directors For Aster DM Healthcare Limited Hemish Purushottam

Company Secretary and Compliance Officer

Clean Kerala Company Limited Regd: Office: TC.29/1732, Ilnd Floor, State Municipal House, Vazhuthacaud, Trivandrum-695 010, Kerala

Email: cleankeralacompany@gmail.com CIN - U90000KL2013SGC035624 e-tender Reference No. PA/3475/CKCL/TVM/2023 Dated: 11.12.2023 E-TENDER - National Competitive Bidding for sale of E-waste

Clean Kerala Company Limited (CKCL), Thiruvananthapuram, Kerala invites Online bids (Technical & Financial) for Collection, Transportation, and Processing of E-waste generated in Kerala, from godowns, Resource Recovery Facility (RRFs) and other Government/Private Sector Offices/Institutions etc established across the state of Kerala. Date of Publishing Tender : 21.12.2023, 16.00 Hrs

 Pre Bid Meeting : 29.12.2023, 15.00 Hrs Last date & time of uploading of Bids : 17.01.2024, 15.00 Hrs Date and time of opening of Bids : 20.01.2024, 15.00 Hrs Interested parties may view and download the tender documents containing the detailed terms and conditions from the website https:// etenders.kerala.gov.in/nicgep/app . Manual bids shall not be accepted except for the original documents/instruments as mentioned in this

tender. For more details: Phone: 0471-2724600, 9497886600. www.cleankeralacompany.com Managing Director

CANCELLATION OF INVITATION FOR EOI Dt: 16.10.2023 **UNDER IBC, 2016**

M/s. KAMACHI INDUSTRIES LIMITED (In Liquidation) : ABC Trade Centre Old No.50, Reg. off

Type of resolution

of public shareholders

Special Resolution

(New No. 39), 3rd Floor, Anna Salai, Chennai - 600 002. : SPP Insolvency professionals LLP

Liquidator Email : msureshkumar@icai.org / Contact No. : +91 73730 52341

The public announcement dt: 16.10.2023 issued by erstwhile liquidator (V. Ganesan) inviting EOI from eligible applicants for sale of Kamachi Industries Ltd as going concern under Regulation 2B, 32(e) and 32A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulation 2016 along with all other related subsequent actions, modification / amendments, time re-schedulements etc., are cancelled / withdrawn with immediate effect.

CA. Mahalingam Suresh Kumar,

Authorised Signatory SPP Insolvency Professionals LLP Place : Coimbatore Date: 23.12.2023 [Liquidator]



SHARE INDIA FINCAP PRIVATE LIMITED CIN: U65921DL1996PTC084042

Registered office: 14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor, Vikas Marg Ext., Delhi DL-110092 Email Id: info@shareindia.com; Website: www.shareindia.com Phone/Fax: 011-43011035/38

PUBLIC NOTICE In compliance with Notification No. DNBR.(PD).029/CGM(CDS)-2015 dated 9th July,

2015 as amended from time to time issued by Reserve Bank of India (RBI), Notice is hereby given that, M/s. Share India Fincap Private Limited (Formely Windpipe Finvest Private limited), NBFC Registration No. 8-14.02471, having its registered office at 14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor, Vikas Marg Ext., Delhi, 110092 (hereinafter referred as "the Company") had made an application dated June 06, 2023 to the RBI for Change in Management of the Company with respect to appointment of Mr. Agam Gupta (DIN:06942114) as a Director of the Company and the RBI has vide its letter dated 21st December, 2023 granted its prior approval for the same, pursuant to which, there will be a Change in Management of the Company leading to the appointment of Mr. Agam Gupta, aged 30 years, S/o Mr. Rajesh Kumar Gupta, R/o 25, Hargobind Enclave, Vikas Marg Ext, Delhi Shakarpur, East Delhi, Delhi-110092. Mr. Agam Gupta is proposed to be appointed as a Director of the Company and thus management of the Company will be changed in favour of Mr. Agam Gupta named above not before the expiry of 30 days from the publication of this Public Notice. The main purpose of such change is to strengthen and broad base the present Non-Banking Financial activities of the Company by the appointment of Mr. Agam Gupta.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed appointment may intimate to Mr. Agam Gupta or the Company at the above-mentioned address and the Reserve Bank of India at DNBS 6, Sansad Marg, New Delhi - 110 001 within 30 days from the date of publication of this notice stating therein the nature of interest and grounds of objection.

Issued by the Mr. Agam Gupta and the Dated: 23-12-2023

Place: Noida **Company Share India Fincap Private Limited**

Sd/-

Date: December 23, 2023

टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुगलसन रोड, ऐरोली, नवी मुंबई —400708, पंजीकृत कार्यालयः "त्रिशूल", तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर लॉ गार्डन के सामने, एलिसब्रिज अहमदाबाद-380006

उत्तर प्रदेश को शराब की नगरी बनाने की तैयारी में भाजपा सरकार: संजीव

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। आप के वरिष्ठ नेता और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभ् श्रीराम की प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है।

दुसरी तरफ योगी सरकार उत्तर प्रदेश को शराब

की नगरी बनाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा, अभी प्रदेश की आबकारी नीति आई है। इसमें बताया गया है कि अब रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर भी शराब बेची जा सकती है।

अगर वहां खुलेआम शराब की बिक्री होगी तो अपराध किस प्रकार होगा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि अब शराब टेट्रा पैक में बिकेगी। अगर 100 वर्ग फुट के अंदर शराब की दुकान है तो 20 मीटर की परिधि में बारशाला बना सकते हैं।

रेशिष्ट IV (नियम 8(1)

देखें) अधिग्रहण सूचना

(अचल संपत्ति हेतू)

राशि (रु.)

हजार एक सौ अड़तालीस मात्र

07 / 10 / 2023 के अनुसार भुगतानयोग्य साथ

में वसूलीकरण तक 14.5 प्रतिशत वार्षिक की

į.		
	। गृहम हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड	I
GRIHUM	(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)	
GRIHOM	पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवाँ तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036	
The same of the sa	ताक्षरकर्ता ने गहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पर्व में पनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात क्योंकि 17 नव	

जो सुधीर एन्क्लेव ग्राम हकीकतपुर उर्फ खुदा बांस परगना लोनी,

तहसील एवं जिला, गाजियाबाद शहर, बंसल चौक. उत्तर

प्रदेश—201102 में स्थित, अधि. 100 वर्ग गज, तथा निम्नानुसार

परिसीमित है :– पूर्व– गली 10 फुट चौड़ी, पश्चिम– गली 20

हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेट में परिवर्तित हो गया है) (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात तथा मूलतः जीई मर्न हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनिलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमीकृत), (यहां इसमें इसके उपरांत उपरांत उपरांत निगमित / पंजीकृत कार्यालय के प्रतिभृत ऋणदाता के रूप में संदर्भित) प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत ''उक्त अधिनयम'' रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना निम्न दिनांकित निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर

उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदर षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 19 दिसंबर 2023 कों, अधिग्रहण कर लिया है। धारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन का लेन–देन निर्धारित बकाया राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु प्रतिभूत ऋणदाता के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभुत परिसंपत्तियों को छडवाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की ाधिग्रहण में ली गयी संपत्ति के विवरण यहां इसमें निम्न प्रदर्शित तालिका में प्रस्तुतानुसार हैं

П		
П		
35	। ान : उत्तर प्रदेश	
दिव	न्नांक : 24-12-2023	

दिल्ली—110088

के नाम

नजमा खातून,

मोह. आजाद हुसैन

हस्ता./- प्राप्यकृत आचकारा गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिन्नात) चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, 4, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत, **शाखा कार्यालय** : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

लिये जाने

अधिनियम, 2002 की धारा 13[2] के अधीन मांग सूचना

तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही आरंभ कर दी है और कि आप कर्जदार / रों को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सचना पंजीकृत पावती डाक के माध्यम से भेजी गई सूचना अवितरित के रूप में वापस प्राप्त हो चुकी है। अतएव, आप से एतदद्वारा सूचित होने और उक्त खाते में वर्णित बकाया ऋण राशि उस पर उद्भृत होने वाले ब्याज के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, कम्पनी अपनी बकाया राशि की वसुली ब्याज और लागतों सहित करने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित प्रतिभूति के प्रवर्तन द्वारा आपके विरूद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाएगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको यह सचना कम्पनी के पास उपलब्ध अन्य उपायों को प्रतिकल प्रभावित किए बिना जारी की जा रही है।

नाम और पता	્રિક્ષ્ણ સારા	एवं बकाया राशि	सम्पात्त/प्रातभूत आस्ति का वर्णन
ऋण खाता सं. X0HEDHE00001210892) 1. सोना सबलानी उर्फ सोना सबनानी (आवेदक) 2. प्रकाश सबलानी (सह—आवेदक) उपरोक्त सभी का पता : ए—2/140, पश्चिम विहार, नई वि अन्य पता :— बी—3/62, जीएफ एवं एफएफ, पश्चिम विहार, नई दिल्ली—110063 अन्य पता :— जी—17, मैजेस्टिक टावर, कम्युनिटी सेंटर, विव नई दिल्ली—110059		13—12—2023 रू. 86,98,265.00 (रूपए छियासी लाख अठ्ठानवे हजार दो सौ पैंसठ मात्र) 08—12—2023 तक बकाया	पश्चिम विहार, नई दिल्ली में स्थित सम्पत्ति सं. 8–3/62 पर निर्मित भू तल और प्रथम तल, छत के अधिकार नहीं, क्षेत्रफल परिमाप 100 वर्ग गज या 83.61 वर्ग मीटर प्रत्येक तल, पृथक पानी, बिजली और सीवर कनेक्शन फिटेड तथा जीना एवं गलियारा और बिल्डिंग की अन्य सुविधााओं के साझा उपयोग के अधिकार तथा उक्त सम्पत्ति के नीचे यथानुपात भूमि, अधिकारों सहित।
ऋण खाता सं. HE01EDL00000015250 X0HEEDL00003244716, X0HEEDL00003393763) 1. सचिन कुमार (आवेदक) पता : 1130 / 1, लाल कुआं, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—2010 2. वाईएमबी पब्लिक स्कूल (इसके स्वामी सचिन कुमार के म (सह—आवेदक) 3. सुषमा यादव (सह—आवेदक) 4. कुंता देवी (सह—आवेदक) 5. सुमित याद उर्फ सुमित कुमार (सह—आवेदक) 2 से 5 का पता : 1130 / 1, लाल कुआं, जैन विहार, गाजिर प्रदेश—201002 ऋण खाता सं. X0HEDHE00000459498 तथा X0HEDET00004263794) 1. प्रीति मेहता उर्फ प्रीति मल्होत्रा (आवेदक) पता : मकान / प्लॉट नंबर 60, सेक्टर—09, ग्रीन वुड पब्लिक स्कूल हिरेयाणा—122001 3न्य पता : प्रीति मेहता उर्फ प्रीति मल्होत्रा दुकान नंबर 11, जेएए एम.जी. रोड, गुरूग्राम, हिरेयाणा—122001 2. कुलदीप मल्होत्रा (सह—आवेदक) पता : मकान / प्लॉट नंबर 60, सेक्टर—09, ग्रीन वुड पब्लिक स्कूल हिरेयाणा—122001 अन्य पता : दुकान नंबर 11, जेएमडी रीजेन्ट प्लाजा, एम.जी. रोड अन्य पता : व्लॉट नंबर 231, सेक्टर—06, आईएमटी मानेसर, हिरे	13—12—2023 रू. 2,27,75,598.00 (रूपए दो करोड़ सत्ताईस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ अठ्ठानवे मात्र) 08—12—2023 तक बकाया 13—12—2023 रू. 98,52,378.00 (रूपए अठ्ठानवे लाख बावन हजार तीन सौ अठहत्तर मात्र) 13—12—2023 तक बकाया	जैन विहार आवासीय कालोनी, हदबस्त ग्राम शाहपुर बम्हेटा, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित परिमाप 3025 वर्ग गज में से सम्पत्ति खसरा नंबर। 130/1 का अंश रूप भूमि परिमाप 375 वर्ग गज (313.53 वर्ग मीटर), जो निम्नानुसार परिबद्ध है — पूरब : 18 फीट चौड़ी रोड/रास्ता, पश्चिम : विक्रेता की सम्पत्ति, उत्तर : विक्रेता की सम्पत्ति, उत्तर : विक्रेता की सम्पत्ति, विद्या देवी, ईश्वर सिंह और सत्य प्रकाश की सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नंबर 60, सेक्टर—09, परिमाप 420 वर्ग मीटर (502.32 वर्ग गज), जो अर्बन एस्टेट नामक आवासीय कालोनी, तहसील और जिला गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित है।	
ऋण खाता सं. X0HEDHE00001266800 तथा X0HEEDL00001512870) 1. आशा रानी (आवेदक) 2. राजिन्दर बब्बर (सह—आवेदक) 3. जितेन्दर बब्बर (सह—आवेदक) उपरोक्त सभी का पता : 185, ब्लॉक—बीएम (वेस्ट) शालीमार	फ. 72,00,000.00 बाग, न्यू बाग, नई	13—12—2023 रू. 30,24,111.00 (रूपए तीस लाख चौबीस हजार एक सौ ग्यारह मात्र) 08—12—2023	प्लॉट नंबर 185, ब्लॉक नंबर —बीएम (वेस्ट), शालीमार बाग आवासीय स्कीम के लेआउट प्लान, दिल्ली—88 में स्थित, क्षेत्रफल परिमाप 180 वर्ग मीटर, जो निम्नानुसार परिबद्ध है — पूरब : रोड 18 मीटर, पश्चिम : एस. लेन, उत्तर : प्लॉट नंबर 186, दक्षिण : प्लॉट

नंबर 184 तिथि : 24–12–2023 स्थान : दिल्ली / एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी : चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड info**edge**

इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1995PLC068021 । पंजी. कार्यालय: जीएफ-12ए, 94, मेघदूत भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19

निगमित कार्यालय : बी–8, सेक्टर–132, नोएडा–201304 (उत्तर प्रदेश) । दूरभाष : 0120-3082000; फैक्स : 0120-3082095 वेबसाइट : www.infoedge.in; ईमेल : investors@naukri.com

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षण और बचाव कोष ("आईईपीएफ") में अंतरण

एतदद्वारा यह सूचना समय–समय पर संशोधितानुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार प्रसारित की जाती है। नियमों में अन्य बातों के साथ–साथ आईईपीएफ प्राधिकरण को अप्रदत्त या अनाभ्यर्थित लाभांश के अंतरण और उन शेयरों के अंतरण के प्रावधान शामिल हैं जिनके संबंध में आईईपीएफ के पास लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अप्रदत्त

अथवा अनाभ्यर्थित है। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने पहले ही उन संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है जिनके शेयर उचित कार्रवाई(यां) किये जाने के लिए उक्त नियमों के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने योग्य हैं। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.infoedge.in पर र्भ अपलोड किया गया है। इसलिए संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नियत तिथि पर या इससे पहले अनाभ्यर्थित लाभांश का दावा करें, अन्यथा शेयरों को नियत तिथि के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिया जायेगा।

संबंधित शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने योग्य हैं, वे यह भी ध्यान दें कि कंपनी नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के बदले में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और इस तरह के मुद्दे पर, मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत है, स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यदि शेयर अभौतिक रूप में रखे गए हैं तो कंपनी कॉरपोरेट कार्रवाई के रूप में डिपॉजिटरी को उचित निर्देश देगी ताकि डिपॉजिटरी उक्त शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करने में सक्षम हो सकें।

शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों पर विचार किया जाना चाहिए और नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डुप्लिकेट शियर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना मानी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को अंतरण पर, अनाभ्यर्थित लाभांश राशि और ऐसे अंतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी पर कोई दावा नहीं किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि अनाभ्यर्थित अथवा अप्रदत्त लाभांश जो पहले ही अंतरित किए जा चुके हैं या जो शेयर कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जा रहे हैं, ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभ सहित, यदि कोई हो, को शेयरधारके द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग करके आईईपीएफ प्राधिकरण से इसकी वेबसाइट अर्थात http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html पर वापस दावा किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी के पास पडे अनाभ्यर्थित लाभांश का दावा करने के लिए या यदि आपको किसी जानकारी / स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपय हमारे आरटीए को लिखें या संपर्क करें : मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच २, सी–1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के समीप, जनकपूरी, नई दिल्ली – 110058, फोन : 011–41410592, ईमेल : iepf.shares@linkintime.co.in

कपया अपने सभी संचारों में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें : 1. कंपनी का नाम, 2. फोलियो नंबर या डीपी और क्लाइंट आईडी, 3. शेयरधारक का नाम, 4. संपर्क नंबर, 5. ईमेल आईडी। पते के प्रमाण के रूप में नवीनतम उपयोगिता बिल के साथ पैन, रद्द चेक लीफ जैसे शेयरधारक के स्व–सत्यापित केवाईसी प्रलेख भी प्रदान करें।

कृते इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

जया भाटिया

👀 इण्डियन ओवरसीन हैं क

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणिवाँ/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखाँ पर नोटिस की तारीखा उक्त मोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर और ब्याज , वसुली आदि पर ब्याज सहित अदा करने के लिए मांग मोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा 19.12.2023 ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन समान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन–देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन इण्डियन ओवरसीज बैंक, को देय राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चेार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख , अगर कोई हो , की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज , शुल्क आदि, भगतान की तिथि तक देव राशि के साथ देव है।

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

ऋणकर्ताओं और बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुनाते हैं

ऋणी / बंधककर्ता व बंधक सम्पत्ति का विवरण गारन्टर का नाम व पता मैसर्स अंजलि रेढीमेड कलेक्शन प्रोप, संपत्ति के सभी भाग और पासल. श्री नवल किशोर पुत्र स्व. श्री हरि सिंह जिसमें एक वाणिज्यिक संपत्ति शामिल मौहल्ला-सत्ता सिंधी वाली गली, है स्थित खसरा नंबर-218 का 1/3 पुराना बस स्टैंड, तहसील चौराहा भाग, कुल क्षेत्रफल 306 वर्ग मीटर एत्मादपुर जिला-आगरा यूपी 283202 स्थित मौजा-सत्ता, एत्मादपुर (इसके बाद "ऋणकर्ता" के रूप में स्वामित्व श्री हरि सिंह पुत्र श्री करण (इसके बाद ऋणकता के रूप में संदर्भित) और हिर सिंह पुत्र श्री करन सिंह (गारंटर) निवासी मोहल्ला— सत्ता विश्वी वाली गुली पुत्राचा बस क्टेंड सिंधी वाली गली, पुराना बस स्टैंड, और शिशुपाल का भाग, उसके बाद तहसील चौराहा एत्मादपुर जिला- खसरा नंबर 216, पूर्व-खसरा नंबर आगरा यु.पी. 283202

219, पश्चिम- सडक दिनांक— 22.12.2023

कब्जा नोटिस कब्जा नोटिस के अनुसार की तारीख बकाया राशि की तारीख 10.03.2022 19.12.2023 मांग नोटिस के 23,04,106.95 अनुसार बकाया राशि + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क ₹ 18,52,849.00 दिनांक 10.03.2022 तक + अगामी व्याज + अन्य शुल्क

प्राधिकृत अधिकारी



नैनीताल बेंक शाखा-डी.एस.एस.-१०, हुड्डा मार्केट, शॉपिंग सेन्टर, सेक्टर-२९ फरीदाबाद, हरियाणा-1210 08 फोन नं.- 07835099057

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता नैनीताल बेंक, डी.एस.एस.-१०, हुइडा मार्केट, शॉपिंग सेन्टर, सेक्टर-29, फरीदाबाद, हरियाणा-1210 08 शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है तथा सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्क्शन ऑफ फाडनेन्शियल ऐसेटस एण्ड. इनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (SARFAESI) एक्ट 2002 के सेक्शन 13(2) के नियम 3 के अधीन 60 दिन की अवधि का डिमान्ड नोटिस निम्नलिखित ऋणियों तथा जमानतियों को जारी कर चुका है। यह कि ऋणी/जमानती ऋण का पूर्ण भूगतान करने में असमर्थ रहे अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की घारा 13(4) व रूल 8 एवं 9 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्ति का जो है जहां है जैसे है के आधार पर दिनांक 21.12.2023 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणियों/जमानतियों तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण जनता को सावधान किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें। सम्बन्धित लेन–देन दि नैनीताल बैंक लि0 के संबंधित ऋणियों/जमानतियों पर देय धनराशियों तथा उस पर देय ब्याज एवं अन्य सम्बन्धित खर्चें की सीमा तक बैंक प्रभार के अधीन होंगे। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा—13 की उपधारा (8) के प्रावधान को आकर्षित किया जाता है ।

(1) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

(2) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. भारत भूषण शर्मा पुत्र रमेश चन्द शर्मा (कर्जदार), नि० डी/५०६, बीएसएनएल टॉवर, सेक्टर १५ए, अजरोन्दा, फरीदाबाद हरियाणा-121007 2. रूपवती देवी पत्नी रमेश चन्द शर्मा (कर्जदार), नि० मकान नं. डी/506, बीएसएनएल टॉवर, सेक्टर 15ए, अजरोन्दा, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 3. विनोद कौल पुत्र माखन लाल (जमानती), नि0 मकान नं. 3बी, हाईडल अपार्टमेंट, सेक्टर 46, फरीदाबाद, हरियाणा-1210 03 4. अजय कुमार तेवतिया पुत्र रणबीर सिंह (जमानती), नि० मकान नं. २१०, सेक्टर ११डी, फरीदाबाद, हरियाणा। वर्तमान पता- पॉमवुड स्टेट, प्लॉट नं. जीएच १४, फ्लैट नं. ३०३, सेक्टर 21 डी, फरीदाबाद, हरियाणा-1210 12

(डिमान्ड नोटिस दिनांक 07.07.2023 को रु. 18,52,581.00 (रुपये अठारह लाख बावन हजार पांच सौ इक्यासी मात्र दिनाक 26.06.2023 तक) दिनाक 27.06.2023 स आग का ब्याज एवं अन्य खर्च जारा किया जा चुका है। घटाये वसुली यदि कोई हो।

दुष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल रिहायशी सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि मकान नं. डी 506, बीएसएनएल टॉवर, सेक्टर 15ए, अजरोन्दा, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 में स्थित है। क्षेत्रफल 497.00 वर्ग यार्डस। सम्पत्ति उप निबन्धक फरीदाबाद के कार्यालय में सेल डीड नं. 9605 दिनांक 24.01.2000 को रूपवती एवं भारत भूषण के नाम पर दर्ज है। सीमाएँ – पूरब में अन्य की सम्पत्ति (श्री हुकुम), पश्चिम में अन्य की सम्पत्ति (मनोज कुमार), उत्तर में मुख्य अजरोन्दा मार्केट, दक्षिण में विद्या मंदिर स्कूल।

1. मैसर्स भारत टैक्नोलॉजी (प्रोपराईटरशिप/कर्जदार), द्वारा इसके प्रोपराईटर भारत भूषण शर्मा, डी/506, बीएसएनएल टॉवर सेक्टर 15ए, अजरोन्दा, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 2. भारत भूषण शर्मा पुत्र रमेश चन्द शर्मा (कर्जदार), नि0 डी/506, बीएसएनएल टॉवर, सेक्टर 15ए, अजरोन्दा, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 2. रूपवती देवी पत्नी रमेश चन्द शर्मा (कर्जदार), नि० मकान नं. डी/५०६, बीएसएनएल टॉवर, सेक्टर १५ए, अजरोन्दा, फरीदाबाद, हरियाणा–१२१००१ 4. आशा शर्मा पत्नी भारत भूषण शर्मा (जमानती), नि० मकान नं. डी/५०६, बीएसएनएल टॉवर, सेक्टर १५ए, अजरोन्दा, फरीदाबाद, हरियाणा-121001

(डिमान्ड नोटिस दिनांक 07.07.2023 को रु. 19,50,821.00 (रुपये उनीस लाख पचास हजार आठ सौ इक्कीस मात्र दिनांक 26.06.2023 तक) दिनांक 27.06.2023 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे जारी किया जा चुका है। घटाये वसुली यदि कोई हो।

दुष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल व्यवसायिक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि दुकान नं. डी/506, बीएसएनएल टॉवर, सेक्टर 15ए, अजरोन्दा, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 में स्थित है। क्षेत्रफल 15.5 वर्ग यार्डस। सम्पत्ति उप निबन्धक फरीदाबाद के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 0 , पेज 43 एवं अतिरिक्त बही नं. 1, जिल्द नं. 5, पेज 7 से 9, क्रमांक 24886 दिनांक 13.02.2008 को महेश चंद शर्मा ने रूपवती के नाम पर दर्ज की है। सीमाएँ - पूरब में हुकुम सिंह शर्मा का घर, पश्चिम में महेश चन्द की दुकान, उत्तर में सड़क, दक्षिण में शेष हिस्सा

स्थान : फरीदाबाद, हरियाणा दिनांक : 24.12.2023 प्राधिकृत अधिकारी



उधारकर्ता एवं जमानतदार

का नाम एवं पता

जॉय टॉवर, सी 20, दूसरी मंजिल, 1/1ए, सी ब्लॉक, फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301 आंचलिक कार्यालय प्रधान कार्यालयः लोकमंगल,1501,शिवाजीनगर, पुणे–5

आधिपत्य सूचना (स्थावर संपत्ति) नियम-8(1)

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभृति—हित—का प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत एवं धारा 13(12) सहपठित प्रतिभृहित हित (प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न वर्णित दिनांक को मांग सूचना पत्र को जारी किया जिसमें निनवर्णित ऋणी एवं जमानतदार को नोटिस में निम्न वर्णित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अनय खर्चों सहित नोटिस प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों की समयावधि में भुगतान करने हेत् निर्देशित किया गया था। यह सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था। ऋणी द्वारा राशि के भूगतान नहीं करने पर ऋणी एवं आमजनता को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट की धारा 13 (4) सहपठित उक्त कथित

बंधक रखी

संपत्ति के विवरण

नियम के नियम 8 के अधीन निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने निम्नवर्णित संपत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** निम्नवर्णित दिनांक को ले लिया गया है। ऋणी एवं जमानतदार क वेशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा निम्नवर्णित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी व्यवहार निम्न वर्णित राशि के लिए **बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा** के निर्मित प्रभार के अध्यधीन होगां। उधारकर्ताओं को एक्ट की धारा 13 एवं एवं उपचारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों एवज में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

The second secon	NOTES AND THE PARTY OF THE PARTY OF	दिनांक			
	सङ्क्ष्यीस्थारका मालिक का नामः 1—श्रीमती. मीना पत्नी श्री राम कुमार	07.10.2023	₹ 19,23,173.00		
एन्क्लेव, रावली महदूद, पोस्ट बहादराबाद, साईबाबा मंदिर के पास, तहसील और जिला, हरिद्वार, उत्तराखंड— 249402 2.श्री राम कुमार बौधरी पुत्र श्री गोवर्धन बौधरी (सह—ऋणकर्ता) निवासी मकान नंबर 43, दक्ष एन्क्लेव, रावली महदूद, पोस्ट बहादराबाद,	निवासी मकान नंबर 43, दक्ष वौधरी संपत्ति का साम्यिक बंधक खसरा नंबर 447 का भाग, मीजा गां र के पास, तहसील और जिला, रावली महदूद, नगर पालिका परिषद की सीमा के बाह राखंड— 249402 शिवालिक नगर, परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वा उत्तराखंड—249402, क्षेत्रफल 1503.60 वर्ग फुट या 139.74 व मीटर, आवासीय प्लॉट 39, 40 एवं 41 का भाग, सीमायों:—उत्तर की महदूद, पोस्ट बहादराबाद, 20 फीट चौड़ी सड़क, साइड की माप—30 फीट, पूर्व: प्लॉट नंबर के पास, तहसील और जिला, 39,40 और 41 का हिस्सा, साइड की माप—50.12फीट परिच				
 1.श्री नवीन कुमार पुत्र श्री विष्णु प्रसाद (ऋणकर्ता) निवासी वार्ड नंबर 1, मुनि की रेती, 	मालिक का नामः 1-श्रीमती बिमला पत्नी श्री नवीन	05.10.2023	₹ 40,37,164.93		
ऋषिकेश, जिला टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड— 249137 2. श्री नवीन कुमार पुत्र श्री विष्णु प्रसाद (ऋण्कर्ता) निवासी विश्वनाथ मंदिर वरदा कक्षाई, मुनि के रेती, तपोवन, ऋषिकेश, जिला टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड—249137 3. श्रीमती बिमला पत्नी श्री नवीन कुमार (ऋणकर्ता)निवासी वार्ड नंबर 1, मुनि की रेती, ऋषिकेश, जिला टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड— 249137 4. श्रीमती बिमला पत्नी श्री नवीन कुमार (ऋणकर्ता) 35, विश्वनाथ मंदिर वरदा कक्षाई, मुनि के रेती, तपोवन, ऋषिकेश, जिला टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड—249137	संपत्ति संख्या 25, वार्ड नंबर 1, मुनि की रेती (खारा स्रोत्र), तहसील नरेंद्र नगर, जिला टेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड— 249137, क्षेत्रफल 2588 वर्ग फीट यानी 240.52 वर्ग मीटर, यानी 287.55 वर्ग गज, सीमायें:—उत्तरः जंगलाट (वन) की संपत्ति, पूर्वः श्री मुकेश आर्य की संपत्ति, पश्चिमः श्रीमती बसंती की संपत्ति, दक्षिणः 10.0 फीट चौड़ी सड़क।				
(ऋणकर्ता) निवासी मकान नंबर 999, लेन नंबर 14, राम नगर,रूड़की—उत्तराखण्ड—247667 2. श्री मोहित पांधी पुत्र रव. अनिल पांधी (सह—ऋणकर्ता) निवासी मकान नंबर 999, लेन नंबर 14, राम नगर, रूड़की—उत्तराखण्ड—247667 3. श्रीमती प्रिया पांधी पत्नी श्री मोहित पांधी पलैट नंबर 360 तीसरी मंजिल, श्री हरि आवासीय, मौजा सलेमपुर राजपुतान, परगना मगवानपुर, तसील रूड़की, जिला हरिद्वार—उत्तराखंड—247667 4. श्री मोहित पांधी पुत्र रव. अनिल पांधी पलैट नंबर 360 तीसरी मंजिल, श्री हरि आवासीय, मौजा सलेमपुर राजपुतान, परगना मगवानपुर, तसील रूड़की, जिला हरिद्वार—उत्तराखंड—247667 5. श्री राजीव सैनी पुत्र श्री. धूम सिंह सैनी (गारंटर) निवासी ग्राम इब्राहिमपुर मसाही, परगना एवं तहसील मगवानपुर, रूड़की, जिला	संपत्ति पलैट नंबर 360 तीसरी मंजिल, श्री हिर आवासीय, खसरा नंबर 1108एम / 1 और 1110 / 1, और 110 और 1111 / 1 और 1109 मिन और 1111 एम और 1111 / 1 एम (भाग), मौजा सालेपुर राजपुतान, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हिरद्वार, उत्तराखंड, क्षेत्रफल 108.27 वर्ग. मीटर या 1165 वर्ग फुट, सीमायें:— उत्तर: मार्ग 5'—0' चौड़ा, पूर्व: मार्ग 5'—0' चौड़ा, परिचम: फलैट नंबर 308 (विक्रेता), दक्षिण: विक्रेता की संपत्ति।	22.12.2023	रू 37,63,111.54 + ब्याज एवं अन्य खर्च 05.10.2023 से		
हरिद्वार-उत्तराखंड-247667	राज्युर्द्धारका मालिक का नामः 1-श्री राम कुमार चौधरी पुत्र श्री	11 10 2022	₹		
चौधरी (आवेदक) निवासी आवासीय मकान	गोवर्धन चौधरी	L o lo bearing	27,26,084.52		
प्लाट संख्या 43 खसरा संख्या 447 ग्राम रावली महदूद, परगना ज्वालापुर तहसील एवं	प्लॉट नंबर 43 खसरा नंबर 447 ग्राम रावली महदूद, परगना ज्वालापुर ्तहसील और जिला—हरिद्वार, उत्तराखंड—	21.12.2023	+ ब्याज एवं अन्य खर्च		

ज्ञात भार (यदि कोई हो):

आरक्षित मूल्य (रुपये में)

दूसरी मंजिल,1-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन नोएडा-201301, यू.पी.,एक्सिस बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, गिगाप्लेक्स, एनपीसी-1

एतद्दवारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणीयों एवं गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी बिक्री ऋण सं. 918030106294100 के अंतर्गत श्री आदित्य भूटानी और श्रीमती सावित्री भूटानी से सुरक्षित लेनदार के बकायों 16.11.2023 तक **रु. 2,26,93,279 / – (दो करोड़ छब्बीस लाख तिरानबे हजार दो सौ उनहत्तर रुपये मात्र)** बकाया एवं भविष्य के ब्याज और लागत की वसली के लिए "जैसा है जहां है"," जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" पर दिनांक 30.01.2024 को बेचा जाएगा। कपया आवश्यक विवरण के लिए संलग्न नीलार्म

हजार एक सौ बहत्तर और पचास पैसे मात्र।) धरोहर जमा राशि (रुपये में) रु.31,13,017.25 / – (इकतीस लाख तेरह हजार सत्रह पच्चीस पैसे मात्र)'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में एवं दिल्ल में देय डीडी / पीओ के माध्यम से । ईएमडी के साथ बोलियां/निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थानः एक्सिस हाउस, टावर-2, दूसरी मंजिल, 1-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा-201301, व पी. ,श्री मुकेश सिंह को संबोधित। वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर प्रत्येव

अनुसूची-संपत्ति का विवरण

5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 30 जनवरी 2024 के

पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे। ई-नीलामी बोली

प्रपत्र, घोषणा आदि सहित ई-नीलामी निविदा दस्तावेज

उपरोक्त विवरण के अनुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट प

कालकाजी नई दिल्ली–110019 में स्थित उक्त संख्या 2/9 के संपूर्ण भूतल के साथ–साथ सामने औ पीछे का देहात और उक्त संपत्ति सम्पूर्ण के बेसमेंट को खोदने, निर्माण करने, स्वामित्व और कब्जे में लेने का अधिकार, 343 वर्ग गज भूमि के एक भुखंड पर बनाया गया है।(और पुनर्निर्माण की स्थिति में, 1) संपूर्ण तहखाने का स्वामित्व, कब्जा और स्वामित्व: 2) कारों की पार्किंग के लिए स्टिल्ट एरिया में 25: हिस्सेदारी के साथ सम्पूर्ण भूतल और एक यूटिलिटी के लिए जगह, स्टिल्ट एरिया में सामान्य शौचालय के लिए जगह के साथ उक्त संपत्ति के नीचे उक्त भूखंड में 32.5: अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य फ्रीहोल्ड स्वामित्व अधिकार / हिस्सेदारी के साथ–साथ सभी उससे संबंधित है या उसकी सुख सुविधा या फिक्स्चर फिटिंग, इलेक्ट्रिकल, सेनेटरी फिटिंग और आवश्यक सुविधाओं के साथ उपकरण के अधिकारों, सुख–सुविधाओं, विशेषाधिकार भी शामिल है। सीमाबद्ध - : उत्तर - विक्रय पत्र के अनुसार, पश्चिम - विक्रय पत्र के अनुसार, दक्षिण – विक्रय पत्र के अनुसार, पूर्व – विक्रय पत्र के अनुसार,

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी https://www.axisbank.com/auction-retail और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर दिए गए लिंक को देखें। नीलामी, बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। किसी अन्य सहायता के लिए इच्छक बोलीदाता श्री मुकेश सिंह, मोबाइल नं. +91–9873015430, बैंक के प्राधिक त अधिकारी से कार्यालय समय के दौरान सुबह 010:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक-24.12.2023 प्राधिकृत अधिकारी स्थान—नोएडा एक्सिस बैंक लिमिटेड

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः राधिका, दसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड: 380009, शार कार्यालयः एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. खसरा नं. 47. ऑक्स फोर्ड स्कल के पीछे. विकासपरी दिल्ली 11001

परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्गठन तथा प्रतिभति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 64) के तह एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकत अधिकारी तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत ऋणी/ओं जैसा कि नीचे दिया गया है, को मांग नोटिस जारी किया है. जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से (दिनों के अंदर भुगतान की तारीख से लेकर वास्तविक तक सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ चुकाने के लिए कह गया है। उक्त ऋणी/सह–उधारकर्ता राशि का भूगतान करने में विफल रहे है। एतद्दवारा ऋणी/सह–उधारकर्ता और आग जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित निर्दिष्ट तिथि को सांकेतिक कब्जा कर लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम तौर पर सार्वजनिक रूप संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन संबंधित तिथि र भविष्य के ब्याज, लागत और शल्क के साथ यहां निर्दिष्ट राशि के लिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शल्व के अधीन होगा। ऋणी/सह–उधारकर्ता/गारंटरों का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, प्रतिभृतियों का विवरण मांग नोटिस की तिथि , रुपये में दावा की गई राशि, कब्जे की तिथि का विवरण नीचे दिया गया है।

1) ऋणी/सह—उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता, 2) ऋण खाता संख्या, 3) ऋण राशि, 4) मांग नोटिस की तिथि, 5) रुपये में दावा की गई राशि, 6) प्रतिभूतियों का विवरण, 7) कब्जा की तिथि ऋणी और सह—उधारकर्ताओं का नाम: डॉ. मुखर्जी नगर के लेआउट प्लान में आरई दिल्ली—110006 में स्थित दीपव ऑटो इंडस्ट्रीज 15/18/2 खसरा नंबर 4 स्वरूप नगर, दिल्ली-110042 दिल्ली और यहाँ भी :संपत्ति नंबर 922 की तीसरी मंजिल का हिस्सा छत के अधिकार के साथ का हिस्सा,दीपक भाटिया 922 तीसरी मंजिल डॉ. मुखर्जी नगर दिल्ली–110009 दिल्ली; ऋण खाता संख्याः 4169781/10876946; ऋण राशिः ऋण खाता संख्या 4169781 द्वारा र 5334904 / – (रुपए तिरपन लाख चौंतीस हजार नौ सौ चार मात्र) और ऋण खाता संख्या 10876946 द्वारा र

मॉडल टाउन गुरुद्वारा दिल्ली-110009 दिल्ली दीपा भाटिया 922 तीसरी मंजिल डॉ. मुखर्जी नगर मॉडल टाउन गुरुद्वारा 2571625 / - (पच्चीस लाख इकहत्तर हजार छः सौ पच्चीस रूपए मात्र) : एनपीए दिनांकः 02.09.2023। मांग सचना 28 / 09 / / 2023; दावा की गई राशिः 28.09.2023 तक रु.7304347 / – (तिहत्तर लाख चार हजार तीन सौ सैंतालीस रुपये मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक वसूली तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज; प्रतिभूति का विवरणः किंगवे कैंप की पुनर्विकास योजना के लेआउट प्लान में डॉ. मुखर्जी नगर में स्थित संपत्ति संख्या 922(160 वर्ग गज), तीसरी मंजिल (छत के अधिकार के बिना) के सभी टुकड़े और अंश, कन्वेंस डीड दस्तावेज क्रमांक 17451 के अनुसार उप रजिस्ट्रार, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 31.07.2003 को श्रीमती दीपा भाटिया के नाम पर दर्ज है। चौहदी :पूर्व में : सर्विस लेन, पश्चिम: सड़क,उत्तर: प्लॉट नंबर 921, दक्षिण: प्लॉट नंबर 923 कब्जे की तिथि :18 / 12 / 2023 ऋणी और सह-उधारकर्ताओं का नामः विपिन सभरवाल मकान नंबर 9/2966 गली नंबर-1 धरमपुरा गांधी नगर

गुरुद्वारा के पास दिल्ली–110031 दिल्ली और यहां भीः मकान नंबर 2966/1 गली नंबर 1 ख नंबर 466/124 धरमपुरा गांधी नगर दिल्ली–110031, किरण सुरेंद्र मकान नंबर 9/2966 गली नंबर–1 धरमपुरा गांधी नगर गुरुद्वारा के पास दिल्ली–110031 दिल्ली: ऋण खाता संख्याः 13873614/8435586; ऋण राशिः ऋण खाता संख्या 13873614 द्वारा रु. 428000 / – (बयालीस लाख आठ हजार रुपये मात्र) और ऋण खाता संख्या 8435586 द्वारा रु.2200000 / – (रुपये बाईस लाख मात्र): एनपीए दिनांक:02.09.2023, मांग सूचनाः 14/09//2023; दावा की गई राशिः नोटिस में उल्लिखित राशि 12.09.2023 तक रु. 2140156/— (केवल इक्कीस लाख चालीस हजार एक सौ छप्पन रुपये) और वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य के संविदात्मक ब्याज को आकरिमक खर्चों, लागत और शुल्कों आदि के साथ चूकाने के लिए; प्रतिभूति का विवरणः खसरा नं.466 / 124 से बाहर, गली नंबर 1 धरमपुरा गांधी नगर, गांव सीलमपुर, इलाका, शाहदरा दिल्ली में स्थित संपत्ति क्रमांक 917/24 (पुराना) और नया क्रमांक प/2966 के सभी टुकड़े और अंश, माप 25 वर्ग गज, । कब्जे की तिथिः 18/12/2023,

ऋणी और सह—उधारकर्ताओं का नामः पीएस हाउस 18 वैली बाजार मेरठ,मेरठ सिटी एचओ—250002 उत्तर प्रदेश अं इसके अलावा मोहल्ला ठठेरवाडा, मेरठ मेरठ सिटी एचओ-250002 में स्थित एक आवासीय प्लॉट मकान नंबर 61 क हिस्सा और इसके अलावाः मोहल्ला ठठेरवाडा, मेरठ मेरठ शहर एचओ –250002 में स्थित एक आवासीय प्लॉट घर नंबरः 90 का हिस्सा, सारिका गोयल106/110 शाहखाकी सोतियों वाली गली मेरठ शहर एचओ उत्त प्रदेश–250002,संजय गोयल108 / 110, शाहखाकी सोतियों वाली गली मेरठ मेरठ शहर एचओ उत्तर प्रदेश–250002 मार रानी106/110 शाहखाकी बुढ़ाना गेट मेरठ सिटी एचओ उत्तर प्रदेश-250002; ऋण खाता संख्याः 3836602; ऋण राशि ऋण खाता संख्या 13873614 द्वारा रु.2487831 / – (रुपये बयालीस लाख आठ हजार मात्र) और ऋण खाता संख्य 8435586 द्वारा रु.2200000 / - (रुपये बाईस लाख मात्र) : एनपीए दिनांक: 02.08.2023 ,मांग सूचना: 14 / 09 / / 2023; दावा की गई राशिः नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए 12.09.2023 तक रु.1873518/- (अड्डारह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ अठारह रुपये मात्र) और वास्तविक वसूली तक भविष्य के संविदात्मक ब्याज, आकरिमक खर्चों, लागत और शुल्कों आदि; प्रतिभूति का विवरणः प्लॉट नंबर 110 के हिस्से की भूमि, ठठेरवाड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन कोड–250001 स्थित सम्पत्ति के सभी टुकड़े और अंश। चौहद्दी इस प्रकार है: पूर्वः सड़क 5 फीट, पश्चिमः मिर्ची लाल की संपत्ति, उत्तरः रतन देवी की संपत्ति, दक्षिणः सरोज देवी की संपत्ति। कब्जे की तिथिः 18/12/2023

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया संपर्क करें: श्री अरुण यादव फोन: 9350538386/ श्री विकास आनंद – हस्ता – कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए, प्राधिकृत अधि

. प्रतिभृति संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लि

उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

बकाया

राशि

फॉर्म ए

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 6 के अंतर्गत) (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

विनसम यार्न्स लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण			
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	विनसम यार्स लिमिटेड	
2.	कॉर्पोरेट के निगमन की तिथि	19 जुलाई 1990	
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, चंडीगढ़	
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	L17115CH1990PLC010566	
5.	कॉर्पोरेट देनदारों के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः —एससीओ 191—192 सेक्टर—34ए, चंडीगढ़ — 160022	
6.	कॉरपोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	22 दिसंबर 2023	
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि	19 जून, 2024 (दिवाला प्रारंभ होने की तिथि से 180 दिन)	
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री संजय गुप्ता, आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00982-C01/2017- 2018/10354	
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई—मेल	पताः– सी–4–ई / 135, जनक पुरी, नई दिल्ली–110058 बोर्ड के साथ पंजीकृत ईमेल आईडीः sanjay@sgaindia.in	
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई—मेल	पत्राचार के लिए पता:— प्राइमस इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड वैल्यूएशन प्राइवेट लिमिटेड , डी–58, तीसरी मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली — 110024 ईमेल आईडी: winsome@primusresolutions.in	
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	5 जनवरी, 2024	
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित धारा 21 की उप—धारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हो,	शून्य	
13.	ऋणशोधन अक्षमता पेशेवरों के नाम जिन्हें एक वर्ग में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिह्नित किया गया है। (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नहीं	

पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 22 दिसंबर 2023 के विनसम यार्न्स लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश

संबंधित फॉर्म

https://ibbi.gov.in/home/download

विनसम यार्न्स लिमिटेड के लेनदारों को एतद्दवारा प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को 5 जनवरी, 2024 को या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

हस्ता /-संजय गुप्ता

दिनांकः 24 दिसंबर 2023 (IBBI/IPA-002/IP-N00982-C01/2017- 2018/10354) स्थान : नई दिल्ली अंतरिम समाधान पेशेवर

कपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक- 22.12.2023

जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-247667

नगर हरिद्वार, उत्तराखंड, पिन–249401

(ऋणकर्ता) पताः 186 गली नंबर 3 श्रवणनाथ संजीव चौधरी प्लॉट नंबर 118 और 119 का भाग, माप पूर्व- 20 फीट 21.12.2023 पश्चिम— 20 फीट, उत्तर— 40 फीट और दक्षिण— 40 फीट, क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट यानी; 74.34 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 138 का भाग, **सीमायें:**--पूर्व -- प्लॉट नंबर 118 और 119 का भाग, पश्चिम- 20 फीट चौडी सडक, उत्तर- प्लॉट नंबर 120 का भाग, दक्षिण— प्लॉट नंबर 118 और 119 का शेष भाग रिथत ग्राम जमालपुर कलां, परगना ज्वालापुर,

247667, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट, सीमायें:- उत्तर: 18

फीट रोड, पूर्व: प्लॉट नंबर 44, पश्चिम: प्लॉट नंबर 42,

दक्षिण: अन्य की भूमि।

श्री विश्वास चौधरी पुत्र श्री संजीव चौधरी मालिक का नामः 1-श्री विश्वास चौधरी पुत्र श्री 25.09.2023

हरिदार शाखा

तहसील एवं जिला–हरिद्वार–उत्तराखंड

+ ब्याज एवं अन्य खर्च

प्राधिकृत अधिकारी

25.09.2023

17,72,845.00

11.10.2023

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

प्रासंगिक प्रपत्र और

अधिकत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:

दिनांक : 23 दिसंबर, 2023

स्थान : नोएडा